MPHIN/2009/34626
डाक पंजीयन क्रमांक
बालाघाट /दैनिक यशोन्नति / 2 /
2016-17

यशोन्नति

दैनिक यशोन्नति की और खबरों एवं ई पेपर के लिये लॉग इन करें
https://dainikyashonnati.com
एप डाउनलोड करें

वर्ष 8+16 अंक 46 | प्रधान संपादक- राजेश अग्रवाल | yasonati@gmail.com | सिवनी सोमवार 16 अ टूबर 2023 | संपादक-मनोज मर्दन त्रिवेदी | मूल्य 1.50 पृष्ठ-4

पृष्ठ-2 सिवनी समाचार ..... | पृष्ठ-3 बालाघाट समाचार | पृष्ठ-4 मंडला समाचार .....

जिले की चारों विधानसभा के लिये कांग्रेस ने घोषित किये प्रत्याशी

सिवनी आनंद पंजवानी, केवलारी से ठाकुर रजनीश सिंह, बरघाट से अर्जुन सिंह काकोड़िया एवं लखनादौन से योगेंद्र बाबा कांग्रेस के प्रत्याशी

सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नवरात्रि के प्रथम दिवस ही कांग्रेस की ओर से भी पहली सूची जारी कर दी गई है। श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 144 उ मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति ने सूची को अंतिम रूप देने के लिये दो दिनों तक इस पर मंथन किया ।। पार्टी सूत्र बताते हैं कि दिल्ली बैठक में कांग्रेस ने करीब-करीब सभी सीटों पर उ मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस द्वारा जारी इस सूची में पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। सिवनी जिले की चारों विधानसभा सीटो पर प्रत्याशी घोषित कर दिये गये है केवलारी विधानसभा से पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश को प्रत्याशी बनाया गया है तो सिवनी विधानसभा में कांग्रेस द्वारा नया प्रयोग किया गया है युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के ठाकुर रजनीश सिंह इस आनंद पंजवानी को प्रत्याशी बनाया है वहीं बरघाट विधानसभा से विधायक अर्जुन काकोड़िया एवं लखनादौन से विधायक योगेन्द्र सिंह बाबा को ही दोहराया गया है ।

यहाँ बता दे कि सिवनी विधानसभा से भाजपा ने वर्तमान विधायक दिनेश राय मुनमुन को प्रत्याशी बनाया है सिवनी विधानसभा में कांग्रेस 1990 से लगातार हार रही है । वहीं केवलारी विधानसभा में वर्तमान में भाजपा का कब्जा है पिछली बार को प्रत्याशी घोषित किया है, कमल मर्सकोले दो बार इस विधानसभा से चुनाव पहले जीत चुके है 2018 में भाजपा ने उन्हें पहले प्रत्याशी घोषित किया था और नामांकन भरा भी गया था परंतु भाजपा ने अंतिम क्षणों में प्रत्याशी बदल दिया था और नरेश बरकाड़े को अधिकृत प्रत्याशी बना दिया था इससे बरघाट विधानसभा में भाजपा में भारी आक्रोश की स्थिती रही और भाजपा की हार हुई तथा कांग्रेस के अर्जुन काकोड़िया चुनाव जीत गये थे। इस बार भाजपा ने अपनी पहली सूची में कमल मर्सकोले को प्रत्याशी घोषित कर दिया है । लखनादौन विधानसभा से कांग्रेस ने दो बार के विधायक योगेंद्र सिंह बाबा को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने यहाँ भी अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है ।

विधानसभा से हार गये थे और भाजपा के राकेश पाल सिंह ने जीत दर्ज की थी केवलारी विधानसभा में भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है । बरघाट विधानसभा में कांग्रेस के अर्जुन सिंह काकोड़िया विधायक है यहाँ से 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी नरेश बरकड़े चुनाव हार गये थे । विधानसभा चुनाव 2023 के लिये भाजपा ने यहाँ से पूर्व विधायक कमल मर्सकोले

आँन लाईन सट्टा और सट्टे में हारी हुई राशि पर ब्याज का मकड़जाल तथा जिले में बढ़ रहे अपराध

सिवनी यशो:- जिले में क्रिकेट के सट्टा का मकड़जाल तेजी से फैल रहा है और इसके चंगुल में फंसकर जहाँ युवा पीढ़ी बुरी तरह बर्बाद हो रही है वहीं अनेक परिवार आर्थिक रूप से बुरी तरह टूट गये है अनेक नामी अमीर और व्यापारी सट्टा जुँआ के जाल में फंस कर सड़क पर आ गये है । क्रिकेट का सट्टा तेजी से प्रचलन में है युवा इसके आकर्षण में पड़कर इतनी बुरी तरह फंस रहे है कि इसके जाल से सब कुछ बर्बाद करने के बाद ही उबर पाते है । पिछले कुछ वर्षों में अनेक युवाओं ने इस व्यापार के कारोबारियों के जाल में फंसकर आत्मा हत्या जैसा अप्रिय निर्णय है ।

सिवनी शहर के अंदर ही अनेक ऐसे परिवार है जिनके परिवार के युवाओं ने सट्ट कारोबारियों के जाल में फंस कर आत्म हत्या की है बताते है कि आँन लाईन क्रिकेट के सट्टे का कारोबार करने वाले माफिया इतनी गुंडागर्दी और शातिर तरीके व्यापार कर रहे है कि कानून भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है । शहर के ही अनेक परिवार सट्टा कारोबारियों के दंश को झेल रहे है ।

इन सट्टा कारोबारियों के व्यापार में उधारी का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाता है और जानकारी तो यह है कि आँन लाईन सट्टे के कारोबारी करोड़ो रूपये का व्यापार पूरी तरह उधारी में ही करते है । जानकार बताते है कि क्रिकेट मैचों पर सट्टे के दाँव उधारी में लगते है परंतु 12 घंटे में राशि नहीं मिलने पर उस राशि पर ऊंची दर ब्याज का मीटर प्रारंभ हो जाता है जो इतनी तेजी से चलता है कि बड़े व्यापारी और खानदानी अमीर भी उस ब्याज की राशि देने में कांप जाते है और इस राशि की वसूली इतनी गुंडागर्दी से की जाती है कि या तो संबंधित सब कुछ बेचकर राशि अदा करता है या फिर आत्मा हत्या करने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। इस व्यापार में जो कारोबारी जुड़े हुये है उन्हें राजनैतिक चोले भी ओढ रखा है और उनकी पहुँच भी लंबी है उनसे सामान्य आदमी उलझने की हि मत भी नहीं करता ।

धूमधाम के साथ मनाई गई श्री अग्रसेन महाराज की जयंती

छाया यशो:- महाराज अग्रसेन एक पौराणिक, कर्मयोगी, लोकनायक, समाजवाद के प्रणेता, युगपुरूष, तपस्वी, रामराज्य के समर्थक एवं महादानी थे महाराज अग्रसेन का जन्म अश्विन शु ल प्रतिपदा को हुआ था नवरात्रि के प्रथम दिवस को अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। अग्रवाल समाज के वरिष्ठजनो द्वारा महाराज श्री के जीवन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि महाराज अग्रसेन धर्मवादी के प्रतिमूर्ति थे जिन्होंने मानव कल्याण के लिये यज्ञ यजन द्वारा समाज की संरचना कर वसुधैव कुटु बकम भावना का मार्ग प्रशस्त किया जो युगो युगो तक अविस्मणीय है हमें उनके पदचिन्हो का अनुसरण करना चाहिए कार्यक्रम के अंत में समाज के वरिष्ठजनों श्री बाबूलाल जी अग्रवाल, श्रीमति राधादेवी अग्रवाल, श्रीमति निर्मला अग्रवाल, श्रीमति कृष्णा अग्रवाल, श्री रमेश गोयल का शाल श्रीफल से स मान किया गया सभी समाजिक बंधुओ आत्मीय आभार व्यक्त किया गया सभी का सराहनीय सहयोग रहा।

आज भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन जूनापानी हनुमान मंदिर से आरंभ करेंगे जनसंपर्क

सिवनी यशो:- आज सोमवार, 16 अ टूबर को भारतीय जनता पार्टी के सिवनी विधानसभा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जूनापानी हनुमान मंदिर पूजन-अर्चन कर जनसंपर्क अभियान आरंभ करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्राम हनुमान मंदिर जूनापानी मे पवनपुत्र श्री हनुमान जी के दर्शन व पूजन के उपरांत जनसंपर्क अभियान प्रारंभ करते हुए प्रातः 10:00 बजे ग्राम पांडीवाडा पहुंचेंगे। इसके पश्चात श्री दिनेश राय मुनमुन 10:20 बजे गंगाढाना, 10:40 बजे भटमतरा,

11:00 बजे दानीमेटा, 11:20 बजे बकोडासिवनी, 11:40 बजे बरसला, 12:00 बजे नंदौरा, 12:20 बजे बखारी, 12:40 बजे गुढ़ी, 01:00 बजे चारगांव, 01:20 बजे जरौंवा, 01:40 बजे समनापुर, 02:00 बजे रामगढ़, 02:40 बजे केवलारी, 03:00 बजे बंदरिया, 03:20 बजे लकवाह, 03:40 बजे दरबई, 04:00 बजे तुलफैरैय्यत, 04:20 बजे खैरनरा, 04:40 बजे पीपरढाना, 05:00 बजे बीजादेवरी, 05:20 बजे माहुलपानी, 05:40 बजे बबैया, 06:00 बजे गोरखपुर, 06:20 बजे ढटई 06:40 बजे सुकरी, 07:00 बजे ग्राम घुंघसा पहुंचेंगे तथा ग्रामीणों से मिलकर कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस दौरान श्री दिनेश राय मुनमुन के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहेंगे।

कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा लिए महिला को पकडा

सिवनी यशो:- सिवनी कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ एक महिला को पकड़ा है और उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया है । प्रेस को दी जानकारी में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अति0 पुलिस अधीक्षक गुरूप्रसाद शर्मा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुरूषोत्तम मरावी के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थ एवं शराब पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत गत 13 अे टूबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुचबुंदिया मोहल्ला में एक महिला अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा अपने पास रख कर बेच रही है और अवैध लाभ कमा रही है । सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सतीश तिवारी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली में टीम गठित कर छापा मार कार्यवाही की गई । जिसमे अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित महिला को पकड़ा गया । जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 920 / 23 धारा 8/20 एनडीपीएस ऐ ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी महिला से 750 ग्राम गंजा जिसकी कीमत सात हजार पाँच सौ रूपये है जप्त हुआ है । इस कार्यवाही में निरी. सतीश तिवारी, उनि राहुल काकोडिया, उनि जयशंकर उइके, आर. नितेश राजपूत,आर अमित,आर. मनोज, आर. राकेश, म.आर नीतू, रीना, अनीता एवं चालक आर. ईरफान खान की भूमिका सराहनीय रही ।

मतदान से हो लोकतंत्र उजियारा

बालाघाट यशो:- जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी मु य कार्यपालन अधिकारी जिपं, श्री डी.एस. रणदा के मार्गदर्शन में स्वीप गतिविधियों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इसी तारत य में गुरुवार रात को जनपद पंचायत वारासिवनी के गर्रा में लाइट शो के माध्यम से रंग बिरंगी रोशनी के बीच व्हीलचेयर पर दिव्यांग मतदाता की आकृति बना मतदान करने प्रेरित किया गया। दिव्यांग मतदाताओ का प्रतिनिधित्व पीडब्लूडी बोटर श्री सुरेंद्र पटले द्वारा किया गया। एसडीएम वारासिवनी सुश्री कामिनी ठाकुर द्वारा उपस्थित ग्राम जनों को मतदान संबंधी शपथ दिलाई गयी। कार्यक्रम में एसडीओपी वारासिवनी श्री चौधरी, तहसीलदार श्री खान, सीईओ सुश्री दीक्षा जैन ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, जन अभियान परिषद के सदस्य, एनआरएलएम टीम,जन सेवा मित्र, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी उपस्थित रहें।

बंडोल एवं केवलारी पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ कार्यवाही

सिवनी यशो:- बंडोल पुलिस ने अवैध शराब पर ताबडतोड कार्रवाई करते हुए 6 पेटी अंग्रेजी शराब पकडी है जिसमें थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. राजेश कुमार दुबे व्दारा लगातार प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जा रही है, दिनाँक 14.10.2023 को रात्री मे भी थाना प्रभारी बंडोल व्दारा मुखबिर सूचना पर थाना स्टाफ के साथ कार्यवाही करते हुए आरोपी राहुल राजपूत पिता नरेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 27 साल निवासी ग्राम रनबेली थाना बंडोल को 06 पेटी अग्रेंजी व देशी शराब कुल 55 लीटर जिसकी कीमत 24800 रूपये बताई जा रही है अवैध शराब के साथ उसे गिर तार किया है। आरोपी ने पुछताछ पर नितिन यादव निवासी सिवनी व्दारा शराब लाकर देना बताया है। दोनो आरोपी गणो के

विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी ऐ ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी राहुल राजपूत को न्यायालय पेश किया गया न्यायालय व्दारा जेल वारंट बनाये जाने पर जिला जेल सिवनी मे दाखिल कराया गया है। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. राजेश कुमार दुबे,जसवंत सिंह ठाकुर, अशोक सेन, मायाराम धुर्वे, प्र. आर. अमर उइके, नौशाद खेरो, सुखराम कुमरे आर. सतीश पाल, नीतेश धुर्वे, राजेश सरयाम, जितेन्द्र रंगारे, राकेश मार्को, म. आर. प्रिंयका डेहरिया,का योगदान सराहनीय रहा। इसी प्रकार थाना केवलारी द्वारा अवैध शराब रेड स्टाप व्दारा टीम गठीत कर मखबीर की सचना पर घटना स्थल ग्राम दुधिया से कालीमाटी के बिच कु हड़ा से झगरा मु य मार्ग पर हिकमत अमली से शराब रेड कार्यवाही की गयी जो कि एक व्यक्ति कु हड़ा तरफ से मोटरसाईकिल से पीछे चार प्लास्टिक 15-15 लीटर की केन में हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब का अवैध परिवहन करते पाया गया जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम बबलू पिता अर्जुन राजनट उम्र 27 साल निवासी गिट्टी खदान पलारी का रहने वाला बताया जिससे उक्त शराब के संबंध मे वैध लायसेंस चाहा गया जो नही होना बताया जो इतनी अधिक मात्रा मे शराब का परिवहन करते पाया गया जिससे उक्त हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब 60 लीटर किमती करीबन 6000 रुपये की व मोटरसाईकिल हीरो कंपनी की नई मो.सा कीमती करीबन 79000 व एक नायलोन की रस्सी मुताबीक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहान के जप्त किया गया। आरोपी बबलू पिता अर्जुन राजनट उम्र 27 साल निवासी गिट्टी खदान पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी ऐ ट का घटित करना पाये जाने पर विधिवत दिनांक 14/10/2023 को समय 18.10 बजे गिर तार कर माननीय न्यायलय जे. आर. पर पेश किया गया है। इस कार्य में निरीक्षक किशोर वानकर, सउनि लुपेश रहांगडाले, आर. 633 सुधिर ठाकुर, आर. 280 दीपक साहू, चालक आर. 725 दीपक अमूले थाना केवलारी का योगदान सराहनीय रहा।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम : वाद विवाद प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन का किया गया आयोजन

सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन लोगो को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। वही स्कूलों व कालेजो के छात्र-छात्राओं द्वारा भी मतदाता जागरूकता गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा निर्वाचन में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधी अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय कुरई में मतदाता जागरूकता निबंध लेखन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई। विद्यार्थियों द्वारा निबंध प्रतियोगिता में उत्साह पूर्वक सहभागिता करते हुए निबंध एवं वाद-विवाद के माध्यम से मतदान के महत्व को बताया। एवं मतदाताओं से भी अपने मतादिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता करने की अपील की गई। वहीं कई युवक - युवती पहली बार मत का प्रयोग करेंगे। और वह खुद मतदान करने एवं लोगो को मतदान के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रासेयो स्वयंसेवक, कॉलेज विद्यार्थी, समस्त स्टॉफ, की उपस्थिति रही।

देश,प्रदेश का सर्वांगीण विकास तथा बढ़ रहा गौरव भाजपा की बेहतर सोच का परिणाम - मुनमुन

-सामाजिक जनों से मिलकर अग्रसेन जयंती की दी शुभकामनाएं -ग्राम-ग्राम प्रवेश पर दिनेश राय मुनमुन का कलश लेकर किया गया आत्मीय स्वागत

सिवनी यशो:- गांव-गांव मे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के और सुव्यवस्थित मकान उपलब्ध हुये है तथा गरीब परिवार की आय बढ़ाने की चिंता और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिये भाजपा पूर्ण संकल्पित है। उक्ताशय की बात भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन द्वारा जनसंपर्क के दौरान कही गयी है। आज भाजपा प्रत्याशी श्री राय ने प्रातः 09:00 बजे मठ मंदिर मे भगवान भोलेनाथ के दर्शन व पूजन किया। तथा अग्रवाल समाज के बंधुओं से मिलकर महाराज श्री अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं दिया। इसके पश्चात क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्राम नगझर स्थित साई मंदिर मे मंदिर में दर्शन व पूजन के उपरांत जनसंपर्क अभियान प्रारंभ करते हुए प्रातः 10:00 बजे ग्राम बिहीरिया (जमुनिया)पहुंचे। तदुपरांत श्री राय सिहोरा-

घाटपिपरिया, बलारपुर, भाटीवाडा, खापा, महलोन- जोगीवाडा, बजरवाडा, कलारबांकी, थांवरी, लुगसा, पौण्डी, बीसावाडी, कुकलाह, अलोनिया, गोरखकलां, परासिया-झिलमिली, खिरखिरी, गोरखपुर खुर्द, नारायणगंज, बांकी, जुरतरा, जुझारपुर, दुकली, बंडोल, राहीवाडा, थावरी, ग्राम खामखरेली पहुंचे। जहां पर ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए श्री दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि पीड़ित शोषित वर्ग की चिंता भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील केन्द्र और प्रदेश सरकार ने करते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना से आवास उपलब्ध कराने का जो क्रांतिकारी कार्य किया है वह राजनीति के माध्यम से सेवा के संकल्प वाला ही राजनैतिक दल कर सकता है । आज हर गांव गांव में गरीबों को पक्के और सुव्यवस्थित मकान उपलब्ध हुये है गरीब परिवार की आय बढ़ाने की चिंता और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिये भाजपा पूर्ण संकल्प के साथ कार्य कर रही है । भाजपा ने विकास की मु यधारा से जोड़ने के लिये हर वर्ग के लिये बड़ी पवित्र मंशा से काम किया है और छोटे छोटे व्यापारी जो बाजार हाट में दुकाने लगाते है उन्हें ठेकेदारों की वसूली से मुक्त करने के लिये नियम बनाये है । हर व्यक्ति देश और प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और देश तथा प्रदेश को खुशहाल बनाये ऐसी मंशा के साथ भाजपा समाज के बीच काम करती है । सरकार के काम में पूर्ण पारदर्शिता का भाजपा की सरकारों ने जो उदाहरण दिया है वह कल्पना से बाहर की बात थी। श्री राय राय ने कहा कि आज सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की राशि बिना किसी कटौती और दलाली के हितग्राहियों के खाते में पहुँच रही है । आज जो प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है तथा देश का गौरव बढ़रहा है वह भाजपा की उसी बेहतर सोच का परिणाम है।

जनसंपर्क अभियान के दौरान दिनेश राय मुनमुन ने गांव गांव-गांव के देवालयों में दर्शन, पूजन किया। तथा ग्राम जोगीवाडा मे बंडोल भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमित राय के निवास पहुंचे तथा उनकी माता जी से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जनसंपर्क अभियान अंतर्गत ग्राम-ग्राम प्रवेश करने पर श्री राय का कलश लेकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण बंधुओं की उपस्थिति रही।

माता-पिता एवं परिवारजनों को मतदान करने के लिए किया प्रेरित

सिवनी यशो:- विधानसभा निर्वाचन 2023 मतदाता जागरूकता स्वीप गतिविधि अंतर्गत जिले में सतत रूप से मतदाता जागरूकता विविध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य आगामी निर्वाचन के दौरान शतप्रतिशत मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी क्रम में शनिवार 14 अे टूबर को जिले के शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता एवं 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके अन्य परिचित मतदाताओं को शिक्षकों के मार्गदर्शन में मतदाता पाती लिखकर 17 नव बर 2023 को होने वाले विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने की अपील की गई।

जबरन नॉलेज

कुछ तो बदलते काका हा हा हा ....



भारत के स्वराज्य' का उद्घोष था श्रीशिवराज्याभिषेक

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक एवं हिन्दू साम्राज्य की स्थापना का 350वाँ वर्ष

` 'हिन्दवी स्वराज्य' की स्थापना का 350वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। विक्रम संवत 1731, ज्येष्ठ शु ल पक्ष त्रयोदशी (6 जून, 1674) को स्वराज्य के प्रणेता एवं महान हिन्दू राजा श्रीशिव छत्रपति के राज्याभिषेक और हिन्दू पद पादशाही की स्थापना से भारतीय इतिहास को नयी दिशा मिली। कहते हैं कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म न होता और उन्होंने हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना न की होती, तब भारत अंधकार की दिशा में बहुत आगे चला जाता।

महान विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय समाज का आत्मविश्वास निचले तल पर चला गया। अपने ही देश में फिर कभी हमारा अपना शासन होगा, जो भारतीय मूल्यों से संचालित हो, लोगों ने यह कल्पना करना ही छोड़ दिया। तब शिवाजी महाराज ने कुछ वीर पराक्रमी मित्रों के साथ 'स्वराज्य' की स्थापना का संकल्प लिया और अपने कृतित्व एवं विचारों से जनमानस के भीतर भी आत्मविश्वास जगाया। विषबेल की तरह फैलते मुगल शासन को रोकने और उखाड़ फेंकने का साहस शिवाजी महाराज ने दिखाया। गोविन्द सखाराम सरदेसाई अपने पुस्तक 'द हिस्ट्री ऑफ द मराठाज-शिवाजी एंड हिज टाइम' के वॉल्यूम-1 के पृष्ठ 97-98 पर लिखते हैं कि 'मुस्लिम शासन में घोर अन्धकार व्याप्त था। कोई पूछताछ नहीं, कोई न्याय नहीं। अधिकारी जो मर्जी करते थे। महिलाओं के स मान का उल्लंघन, हिंदुओं की हत्याएं और धर्मांतरण, उनके मंदिरों को तोड़ना, गोहत्या और इसी तरह के घृणित अत्याचार उस सरकार के अधीन हो रहे थे।। निज़ाम शाह ने जिजाऊ माँ साहेब के पिता, उनके भाइयों और पुत्रों की खुलेआम हत्या कर दी। बजाजी निंबालकर को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। अनगिनत उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। हिन्दू स मानित जीवन नहीं जी सकते थे'। ऐसे दौर में मुगलों के अत्याचारी शासन के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो भारत के 'स्व' पर आधारित था। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। धर्म-संस्कृति फिर से पुलकित हो उठी।

हिन्दवी स्वराज्य 350 वर्ष के बाद भी प्रासंगिक है` योंकि वह जिन आदर्शों पर खड़ा था, वे सार्वभौगिक और कालजयी हैं। हिन्दवी स्वराज्य की चर्चा इसलिए भी प्रासंगिक है ` योंकि संयोग से केंद्र में आज ऐसी शासन व्यवस्था है, जो भारत को उसके 'स्व' से परिचित कराने के लिए कृत-संकल्पित है। हिन्दवी स्वराज्य का स्मरण एवं उसका अध्ययन हमें 'स्व' के और अधिक समीप लेकर जाएगा।

प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरदार के अनुसार, ÷शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे कि हम उन्हें आज भी लगभग बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा को शांति, सार्वभौमिक सहिष्णुता, सभी जातियों और पंथों के लिए समान अवसर, प्रशासन की एक लाभकारी, सक्रिय और शुद्ध प्रणाली, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नौसेना और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रशिक्षित सेना देने का लक्ष्य रखा÷। यदि हम वर्तमान मोदी सरकार की शासन व्यवस्था के सिद्धाँतों को देखें, तो उसके केंद्र में भी लगभग यही विचार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार-बार यह उल्लेखित करते हैं कि उनकी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र को लेकर चल रही है।



शिवाजी महाराज ने राज्य को 'स्व' का आधार देते हुए भारत केंद्रित नीतियों को बढ़ावा दिया, जैसे- फारसी और अरबी को हटाकर स्वभाषा का प्रचलन, विदेशी मुद्रा की जगह स्वराज्य की नयी मुद्रा शुरू करना, किसानों और सरकार के बीच से बहुत समय से प्रचलित आढ़ती व्यवस्था को हटाकर राजस्व संग्रह करने के लिए रैयतवाडी व्यवस्था प्रारंभ की, सीमा सुरक्षा के नये प्रबंध, विदेश नीति में बदल, राज्य व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अष्टप्रधान मंडल की व्यवस्था, सैन्य सशक्तिकरण पर जोर और मुगलों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके नयी व्यवस्थाएं खड़ी करना। हिन्दवी स्वराज्य की भाँति ही वर्तमान केंद्र सरकार भी मानती है कि कृषि एवं उद्योग को प्रोत्साहन देकर लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जब लोग आत्मनिर्भर होंगे, तब ही राज्य भी आत्मनिर्भर होकर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। वर्तमान सरकार ने कृषि सुधारों के लिए आगे बढ़कर पहल की है।

हालांकि कुछ लोगों की जिद के कारण सरकार को तीन ऐतिहासिक कृषि कानून वापस लेने पड़े। मुद्रा प्रबंधन में भी सरकार शिवाजी महाराज की तरह सजग है। जाली नोटों से निपटने एवं कालेधन पर चोट करने के लिए केंद्र सरकार ने विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। जब एक बार फिर सरकार को लगा कि दो हजार रुपये के नोट के रूप में कालाधन जमा होने लगा है और जाली नोट की सं या भी बढ़ रही है, तब एक बार फिर सरकार ने मुद्रा प्रबंधन के सिद्धांत का पालन करते हुए इस बड़े नोट के प्रचलन को बंद कर दिया।

कल्याणकारी राज्य की स्थापना का एक और सिद्धांत है कि राजनीति में परिवारवाद के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 'स्वराज्य' की स्थापना की, तब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह भोंसले घराने का शासन नहीं है, यह मराठा साम्राज्य भी नहीं है, यह हम सबका 'स्वराज्य' है। इसमें सबकी समान भागीदारी है। यह ईश्वरी की इच्छा से स्थापित 'हिन्दू साम्राज्य' है। इसलिए, उन्होंने अपने साम्राज्य को महाराष्ट्र साम्राज्य, मराठी साम्राज्य, भोंसले साम्राज्य नाम न देकर, उसे 'हिन्दवी साम्राज्य' और 'हिन्दू पद पादशाही' कहा।

मुगल साम्राज्य के ज्यादातर किलों का प्रमुख औरंगजेब का कोई रिश्तेदार ही था। जबकि हिन्दवी स्वराज्य में किलेदार की नियुक्ति की कड़ी और पारदर्शी व्यवस्था थी, तय मापदंड पर खरा उतरनेवाले व्यक्ति को ही किले की जि मेदारी मिलती थी। उनके राज्य के शासन में किसी के लिए अनुशासन में ढील नहीं थी। जो नियम सामान्य नागरिक के लिए थे, उनका पालन महाराज भी उतनी ही कठोरता से करते थे। अपराध करने पर उनके रिश्तेदार भी सजा और कानून से बच नहीं सकते थे। उनका शासन सही अर्थों में प्रजा का शासन था।

मछुआरों से लेकर वेदशास्त्र पंडित, सभी उनके राज्यशासन में सहभागी थे। स्वराज्य में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं था। पन्हाल गढ़ की घेराबंदी में नकली शिवाजी बनकर महाराज की रक्षा करनेवाले शिवा काशिद, जाति से नाई थे। अफजल खान के समर प्रसंग में शिवाजी के प्राणों की रक्षा करनेवाला जीवा महाला था। आगरा के किले में कैद के दौरान उनकी सेवा करने वाला मदारी मेहतर था।

हिन्दवी स्वराज्य के 350वें वर्ष में जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो एक बात स्पष्ट तौर पर दिखायी देगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति या राजा नहीं, वे एक विचार और एक युगप्रवर्तन के शिल्पकार थे। इसलिए जब ईस्वी सन् 1680 में शिवाजी महाराज ने हिन्दवी स्वराज्य की राजधानी दुर्गदुर्गेश्वर 'रायगढ़' की गोद में अंतिम सांस ली, तो उनका विचार उनके साथ समाप्त नहीं हुआ।

अे ?सर यह होता है कि कोई प्रतापी राजा अपने बाहुबल और सैन्य कौशल से बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह साम्राज्य ढह जाता है। शिवाजी महाराज के साथ ठीक उलटा हुआ। उनके देवलोकगमन के बाद हिन्दवी साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ और वह समय भी आया जब मुगलिया सल्तनत धूलि में मिल गई तथा भारतवर्ष में हिन्दवी स्वराज्य का परम पवित्र भगवा ध्वज गर्व से लहराने लगा।

छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के समय मुगल साम्राज्य उत्तर में काबुल प्रांत से लेकर दक्षिण में तिरुचिरापल्ली तक, पश्चिम में गुजरात तक और पूर्व में असम के बहुत बाहरी इलाके तक, , भारत के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। ऐसा कह सकते हैं कि मुगल बादशाह की हुकूमत देश के हर हिस्से में चलती थी। लेकिन 1719 में अत्याचारी औरंगज़ेब की मृत्यु के 12 वर्षों के भीतर ही मराठों ने दिल्ली में प्रवेश किया और मुगल राजधानी के मु य मार्गों में भगवा ध्वज लेकर पथ-संचलन साफ संदेश दे दिया कि अब भारत विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से स्वतंत्र होकर रहेगा। 1740 तक मालवा और बुंदेलखंड पर मराठों का आधिपत्य हो गया।

1751 में उन्होंने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया और बंगाल और बिहार पर चौथ लगाया। 1757 में उन्होंने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया और 1758 में हम उन्हें पंजाब को अधीन करते हुए और अटक के किले पर भगवा ध्वज लहरा दिया। महादजी सिंधिया ने 1784 में दिल्ली से मुगल सल्तनत को पूरी तरह उखाड़कर फेंक दिया। 1784 से 1803 तक दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर हिन्दू संस्कृति का परम पवित्र 'भगवा ध्वज' गर्व से लहराया। अब भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जि मेदारी हिन्दवी स्वराज्य के योद्धाओं के कंधों पर आ गई थी। इसलिए दक्षिण में तटीय क्षेत्रों को पुर्तगालियों के कब्जों से मुक्त कराना हो या फिर उत्तर में अफगानिस्तान के मैदानों से प्रवेश करनेवाले आक्रांताओं के वार झेलने हों, हिन्दू साम्राज्य की सेना ही मोर्चा लिए दिखायी देती है।

हमें इस तथ्य से सबको अवगत कराना चाहिए कि अंग्रेजों के हाथों में भारत के शासन के सूत्र मुगलों से नहीं, अपितु हिन्दुओं के पराभव से पहुँचे। सन् 1803 में असई की लड़ाई के साथ ही भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया, जो तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध-1818 में अंग्रेजों की जीत के साथ लंबे समय तक स्थायी हो गया। स्मरण रखें कि हिन्दवी स्वराज्य पर हमला करने के लिए मुगलों ने ही अंग्रेजों को आमंत्रित किया था।

हिन्दवी स्वराज्य का यह सामर्थ्य, उसका वैभव, उसके सिद्धांत और आदर्श, आज भी हमारे लिए प्रेरणा और पथ-प्रदर्शक हैं। इसलिए 'स्वराज्य-350' के स्वर्णिम अध्याय के पृष्ठ उलटने के कर्मकांड से ऊपर उठकर उसके आदर्श को धरातर पर उतारने और उसे प्रगाढ़ करने का वातावरण बनाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ओर से शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350वां वर्ष प्रारंभ होने पर वक्तव्य जारी करके स्वयंसेवकों एवं समाज के सभी बंधुओं से आह्वान किया है कि इस संदर्भ में होनेवाले कार्यक्रमों में सहभागिता करें। प्रतिनिधि सभा की ओर से माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी होसबाले के आह्वान का अधिकतम अनुपालन होना चाहिए।

राज्याभिषेक को केंद्र में रखकर जो कार्यक्रम आयोजित हों, उनमें हमें सहभागिता करने के साथ ही अपने स्तर पर भी राज्याभिषेक की घटना के महत्व को प्रकाश में लाकर, 'स्व' की भावना को जगाने में सहयोग करना चाहिए। समूचा देश जब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की ऐतिहासिक घटना का स्मरण करना इसलिए भी प्रासंगिक होगा कि हम 'स्वराज्य' की संकल्पना को सही अर्थों में समझ पाएंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया में ई-चालान का उपयोग कराएं

*मतदान कर्मियों को ईवीएम, वीवीपेट का अधिक से अधिक प्रशिक्षण दें
*सभी जिले स ती के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराएं
*सागर संभाग में सात हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों पर साठ लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान
*भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुई सागर संभाग में चुनाव तैयारियों की समीक्षा
*निष्पक्ष, स्वच्छ, और शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के मु य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन के निर्देश

भोपाल । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मु य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन ने सागर संभाग में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। निवाड़ी जिले के ओरछा में हुई समीक्षा बैठक में संभाग के सभी जिलों के कले टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। बैठक में विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में निर्देशित किया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया में ई-चालान का उपयोग कराएं। मतदान कर्मियों को ईवीएम, वीवीपेट का अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिलाया जाए। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान स ती के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराएं। शांतिपूर्वक चुनाव के लिए सुरक्षा के दो प्लान तैयार करें। डाक मतदान वाले पात्र व्यक्तियों को डाक मतदान करने की जानकारी समय सीमा में प्रदान की जाए। मतदाता सूची में डुप्लीकेशन न हो।

बैठक में बताया गया कि सागर संभाग में सात हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों पर साठ लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। मृत लोगों के नाम सूची में न रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हों, उनके ईपिक कार्ड वितरित किए जाएं। सभी रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लें और मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि जिन मतदान केंद्रों में 1500 से अधिक मतदाता हैं, ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में बाँटा जाए। नया मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में बनाया जाए।

श्री राजन ने निर्देश दिए कि तत्काल अन्तर्राज्यीय एवं अंतर जिला नाका प्रारंभ करें, जिससे कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मचारियों, 80 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों एवं कोविड से अत्यधिक पीड़ित रहे व्यक्तियों के लिए बैलेट की तैयारी अच्छी तरह से की जाये। बीएलओ को भी पता होना चाहिए कि किन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाना है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति सा प्रदायिक पोस्ट या रि-पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का काम न कर सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक और जिला बदर की कार्यवाही की जाये। चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री की रोकथाम के लिए जिले और राज्य की सीमाओं में नाका स्थापित कर वाहनों की स ती से जांच की जाये। मदिरा के अवैध निर्माण और परिवहन पर स त कार्यवाही की जाये। लाइंग स्कॉड और एसएसटी द्वारा मुस्तैदी से काम किया जाये।

चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए बनाए गये सी-विजिल मोबाइल एप का व्यापक प्रचार किया जाए। वल्नरेबल क्षेत्र के मतदान केंद्रों में सुरक्षा के इंतजाम करने के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गए।

श्री राजन ने सागर जिले में चांदी एवं धनराशि जब्ती की कार्रवाई की सराहना की एवं कहा कि सभी जिले इस तरह की कार्रवाई करे।इसी प्रकार सागर के स्वीप प्लान के तहत की जा रही गतिविधियों की भी उन्होंने सराहना की। स्वीप की गतिविधियों का एक वीडियो कले टर सागर श्री दीपक आर्य ने बैठक में प्रदर्शित किया।

बैठक में संयुक्त मु य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राकेश सिंह, संयुक्त मु य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश तथा राज्य पुलिस नोडल अधिकारी श्री अनुराग सहित संभागायुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, आईजी श्री प्रमोद वर्मा, डीआईजी श्री सुनील कुमार जैन, शामिल सभी कले टर और पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने-अपने जिले में निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई।

पीएम मोदी ने गरबा गीत के साथ की नवरात्रि की शुरुआत
रिलीज किया अपना लिखा 'माडी सॉन्ग' मीत ब्रदर्स ने किया है क पोज

नई दिल्ली÷ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवरात्रि की शुरुआत 'माडी' नाम से एक नया गाना जारी करके की है. पीएम मोदी ने ऐ स पर किए एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने इस गीत के बोल लिखे हैं, जिसे दिव्य कुमार ने अपनी आवाज दी है. मीत ब्रदर्स ने इस गाने को क पोज किया है. यह गाना गुजराती में गाया गया है और जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की शुरुआत करने के लिए एकदम सही गरबा सॉन्ग है.

'माडी' दूसरा गाना है जिसे पीएम मोदी ने इस साल नवरात्रि के लिए लिखा है. शनिवार को उन्होंने खुलासा किया कि गरबो नाम से एक और गाना उन्होंने लिखा है. ऐ स पर गाने का लिंक साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'जैसा कि शुभ नवरात्रि हमारे सामने आ रही है, मुझे पिछले सप्ताह के दौरान मेरे द्वारा लिखे गए एक गरबा सॉन्ग को साझा करते हुए खुशी हो रही है. उत्सव की लय को सभी को गले लगाने दें! मैं दिव्य कुमार का इस गरबा को आवाज देने और संगीत देने के लिए मीत ब्रदर्स का धन्यवाद करता हूं.'

उन्होंने गरबा गीत की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए गायिका ध्वनि भानुशाली को भी धन्यवाद दिया. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'मेरे द्वारा वर्षों पहले लिखी गई गरबा की इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जस्ट यूजिक की टीम को धन्यवाद! यह कई यादें वापस लाता है. मैंने कई वर्षों से नहीं लिखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं एक नया गरबा लिखने में कामयाब रहा, जिसे मैं नवरात्रि के दौरान साझा करूंगा. कंगना रनौत ने गाने पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'कितना खूबसूरत है, चाहे वह अटल जी की कविताएं हों या नेंद्र मोदी जी के लिखे गीत/कविताएं और कहानियां, हमारे नेताओं को कला की सुंदरता और कोमलता में लिप्त देखना हमेशा दिल को छू जाता है.

सियाचिन ग्लेशियर – विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में स्थापित हुआ पहला मोबाइल टावर

लद्दाख/ज मू.। भारत सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है. इसी क्रम में संचार ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सीमा क्षेत्रों पर ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है. पश्चिमी लद्दाख में 15,500 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में सेना की सिग्नल रेजीमेंट के जवानों ने भारत संचार निगम लिमिटेड (क्स्हरु) की सहायता से पहला मोबाइल टावर लगाया है. इससे यहाँ संचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी.

सियाचिन ग्लेशियर में टावर लगने से ना सिर्फ देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक अपने परिजनों से संपर्क स्थापित कर सकेंगे. उन्हें 4जी इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी. संचार के बुनियादी ढांचे को अधिक मजबूत बनाने के लिए सियाचिन क्षेत्र में और भी मोबाइल टावर लगाने की योजना है. इन्हें लगाने का काम भी आने वाले कुछ वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा.

सियाचिन के अलावा दूसरी ओर चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (स्नष्ट) के करीब स्थित यूरगो गांव में भी 'एयरटेल' (द्बह्लह्द्य) ने इस सप्ताह अपना टावर लगाया है. टावर लगने से यह दूरदराज का क्षेत्र अब मोबाइल कर्नो टविटी से जुड़ गया है. पहले क्षेत्र में मोबाइल टावर न होने के कारण पूर्वी लद्दाख के दूरदराज क्षेत्र के निवासी संचार सुविधा से वंचित थे. इसके अलावा सीमा सुरक्षा में तैनात सैनिकों व ढ्ढञ्जक्चक्क के जवानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब यूरगो गांव में मोबाइल टावर स्थापित होने से क्षेत्र के अन्य गांवों में भी जल्द मोबाइल सुविधा शुरू होने की संभावना है.

इस समय लद्दाख के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है. प्रदेश प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि मोबाइल कंपनियां दूरदराज क्षेत्रों तक अपनी सेवा पहुंचाएं.

1984 से सियाचिन में बहादुरी से डटे सैनिक

सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है. इसका लंबाई 75 चद्व है. सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा बैटलफील्ड भी है. यह भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास स्थित है. सियाचिन ग्लेशियर भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास करीब 78 चरू में फैला है. इसके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ अे साई चीन है. 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन को बेजान और बंजर बताया गया था. हालांकि तब भारत-चीन के बीच इसके सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था. 1984 में भारतीय सेना को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना इस क्षेत्र को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद 13 अप्रैल, 1984 को भारतीय सेना ने अपनी फायर एंड यूरी कॉर्प्स की स्पेशल टुकड़ी को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया और तबसे लेकर अब तक भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से इस सबसे अधिक उंचाई वाले क्षेत्र पर डटे हैं. यहाँ तैनात सैनिकों को दुश्मनों से ज्यादा खतरा मौसम से रहता है.

कांग्रेस ने जारी की 144 उ मीदवारों की पहली सूची; कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की ओर से भी पहली सूची जारी कर दी गई है। श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 144 उ मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। इससे पहले प्रत्याशियों के नामों लेकर शुक्रवार (13 अे टूबर) को दिल्ली में मंथन हुआ था। पार्टी सूत्र बताते हैं कि दिल्ली बैठक में कांग्रेस ने करीब-करीब सभी सीटों पर उ मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं।

उ मीदवारों की जारी पहली लिस्ट के अनुसार पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे।

शिवराज के खिलाफ बजरंग बली

मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से मैदान में हैं। कांग्रेस यह सीट 20 साल से नहीं जीत पाई है। शिवराज सिंह यहां से 1990, 2006, 2008, 2013 और 2018 में विधायक बने। 2003 में यहां से भाजपा के ही राजेंद्र सिंह विधायक बने थे। इस बार कांग्रेस ने शिवराज के खिलाफ विक्रम मस्ताल शर्मा को टिकट दिया है। मस्ताल 2008 में प्रसारित %रामायण% धारावाहिक में भगवान हनुमान का किरदार अदा कर चुके हैं। वे जुलाई में ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश में बुधनी के ही निवासी हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कमलनाथ को प्रगति पुरुष करार दिया था।

कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शु ला

भाजपा ने इस बार चौंकाते हुए वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर-1 से टिकट दिया है। कांग्रेस ने यहां से दोबारा संजय शु ला पर भरोसा जताया है। शु ला ने पिछली बार भाजपा के सुदर्शन गुप्ता को हराया था।

सात बार से विधायक डॉ. गोविंद सिंह फिर मैदान में

भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट से कांग्रेस ने डॉ. गोविंद सिंह को दोबारा मैदान में उतारा है। वे सात बार से यहां से विधायक हैं। तीन दशक से यहां भाजपा नहीं जीत पाई है। उनका मुकाबला इस बार भाजपा के अंबरीश शर्मा गुड्डू से है। शर्मा पहले बसपा में थे और बाद में भाजपा में शामिल हुए थे।

साध्वी को टिकट

जिस बड़ा मलहरा सीट से कभी उमा भारती विधायक बनी थीं, वहां से कांग्रेस ने साध्वी राम सिया भारती को टिकट दिया है। यहां से भाजपा ने प्रद्यु न सिंह लोधी को उ मीदवार बनाया है। 2018 में लोधी कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। 2020 में वे भाजपा में शामिल हो गए और उपचुनाव में जीते।

नवरात्र महोत्सव में रात्रि 10:00 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे

शांति समिति की बैठक में अधिकारियों ने दिए स त निर्देश

छपारा यशोः- शनिवार को नवरात्र दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक स्थानीय थाना परिसर में संपन्न हुई बैठक में सभी दुर्गा उत्सव समितियां के सदस्यों को रात्रि 10 बजे के बाद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करने आदि के निर्देश दिए गए।

बैठक में तहसीलदार छपारा नितिन चौधरी, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी सौरभ पटेल, मु य नगर परिषद अधिकारी श्याम गोपाल भारती के सानिध्य में संपन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए छपारा थाना प्रभारी सौरभ पटेल ने आदर्श आचार संहिता और उच्च अधिकारियों की ओर से मिले हुए निर्देशों के अनुसार नवरात्र दशहरा पर्व मनाने के निर्देश दिए, आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर स त कार्रवाई की जाएगी एवम सभी दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य, पदाधिकारी को अपने पंडाल रैली की व्यवस्था सुरक्षा की जि मेदारी स्वयं लेने होगी, साथ ही विसर्जन के लिए बैनगंगा तट के घाट पर तय समय पर मूर्ति विसर्जन की बात कही गई। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्य द्वारा नगर की मु य सड़कों में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही गई साथ ही साफ सफाई को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान तहसीलदार नितिन चौधरी द्वारा दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों से को निर्देश देते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसकी विधिवत अनुमति एसडीएम कार्यालय से लेना अनिवार्य है एवं सभी समितियां को रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद करना पड़ेगा रात्रि 10 बजे के बाद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी को शांति और सौहार्द पूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की सलाह दी गई।

कांग्रेस की सूची में दिखा परिवारवाद, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार

कांग्रेस ने कमलनाथ को सूची में दरकिनार कर दिया पहली सूची में दिल्ली और दिग्गी की चली कमलनाथ और कांग्रेस के खिलाफ जनआक्रोश है ये कांग्रेस हाईकमान को भी पता है

भोपाल यशोः- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पहली सूची में सबसे ऊपर चार, परिवारवाद, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार है। आज आई कांग्रेस की सूची ने साबित कर दिया है कि जनता के बाद अब कांग्रेस हाईकामान को भी कमलनाथ पर विश्वास नहीं रहा, यही कारण है छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ को छोड़ किसी भी वर्तमान विधायक की टिकट फाइनल नहीं हुई। इस सूची में दिल्ली और दिग्विजय सिंह की छाप स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस ने जनजातीय नायकों का अपमान करने वाले, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले और वंदे मातरम का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं को टिकिट देकर यह सन्देश दिया है की जिन कांग्रेस नेताओं पर संगीन मामले दर्ज हैं, कांग्रेस ऐसे कृत्य करने वालों के साथ है। ऐसे चाल-चरित्र-चेहरों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस की हार सुनिश्चित है।

युवाओं को दरकिनार और अपराधियों से भरी है कांग्रेस की सूची

विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सूची में परिवारवाद, गुटबाजी, महिला विरोधी की तस्वीर देखी जा सकती है। कांग्रेस ने उमंग सिंघार, सुरेश राजे और सिद्धार्थ कुशवाहा को उमीदवार बनाया है इन नेताओं पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने 28 युवाओं को मौका दिया हैं लेकिन कांग्रेस की सूची में 50 से 65 साल तक उम्र के नेता भी चुनावी मैदान में हैं इससे पता चलता है कि युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना अंतर है।



सूची के साथ कांग्रेस में विवाद और इस्तीफों का दौर शुरू

श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पहली सूची आते ही पूरे प्रदेश से विरोध के स्वर और इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। कई जगहों पर कांग्रेस नेता एक.दूसरे का विरोध खुलकर करने लगे हैं। कांग्रेस में किस हद तक गुटबाजी हावी हो चुकी है, इसकी तस्वीरें जगह-जगह से आना शुरू हो गयी हैं। कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ता को छोड़कर उन्हीं नेताओं को टिकट दिया गया हैं जो केवल बड़े नेताओं के चक्कर लगाते हैं। कांग्रेस नेता श्री अजय यादव ने कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा तक दे दिया है, ऐसा ही हाल हर जिले में है।

वंशवाद की भेंट चढ़ी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची

श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिस परिवारवाद के लिए पहचानी जाती है, उस परिवारवाद की छाया भी इस सूची में साफ दिखाई देती है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघौगढ़, उनके भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा, उनके रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह को खिलचीपुर से, समधी घनश्याम सिंह को सेवड़ा, भांजे सिंधु विक्रम सिंह को शमशाबाद और भांजा-दामाद अजय सिंह को चुरहट से टिकट दिया गया है। इसी तरह प्रेमचंद गुड्डू की बेटी, अरूण यादव के भाई, अजय सिंह के मामा राजेन्द्र कुमार सिंह को टिकट दिया है, इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची वंशवाद की भेंट चढ़ गई है।

कांग्रेस ने गंभीर चिंतन और मंथन कर दागी, आरोपियों को दिया टिकिट

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छह माह पहले सूची जारी करने वाली कांग्रेस ने गंभीर चिंतन और मंथन कर दागी, आरोपियों और महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों को टिकिट दिया है। कांग्रेस की पहली सूची ऐसे कांग्रेसियों से भरी है जो जनजातीय नायकों का अपमान करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं पर अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, सवर्ण समाज के खिलाफ अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करने वाले फूलसिंह बरैया और जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, कथावाचकों का अपमान कर गीता श्लोकों की पैरोडी बनाते हैं और जिनके अनैतिक कृत्यों के वीडियो वायरल होते हैं। ऐसे प्रत्याशियों के चाल-चरित्र-चेहरों को लेकर उतरी कांग्रेस की हार सुनिश्चित है।

कोरोना में मृत लोगो का तर्पण सिर्फ दिखावा : कांग्रेस

सिवनी यशोः- कोरोना में मृत लोगो का तर्पण सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ के लिए सिवनी विधायक द्वारा किया जा रहा है सिवनी में इलाज के अभाव में, ओ सीजन की कमी, डो टरो की अनउपलब्धता और डो टरो की लापरवाही के कारण असमय हजारो लोग काल के गाल में समा गये, बहुत से ऐसे परिवार है जिनकी जमा पंजी नागपुर, जबलपुर, गोंदिया के प्रायवेट अस्पतालों में इलाज कराकर खत्म हो गई। सारी लापरवाही शासन प्रशासन और सिवनी विधायक की थी जो कि अपनी आदत के अनुसार अस्पताल परिसर में पी पी कीट पहनकर डो टरो के साथ फोटा खिचवाकर सोशल मीडिया में ऐसा प्रचारित करवाते रहें कि कोरोना के मरीजो का भार इन्हीं के कंधो पर है। शहर के निजी हास्पिटल भाजपा नेता के हास्पिटल बेड देने के हजारो रूपय कोरोना मरीजो से लेते रहें तब सिवनी विधायक को नही दिखा कि कोरोना मरीजों के साथ` या हो रहा है मृत कोरोना मरीजो की लाशे 24-24 घंटे जिला चिकित्सालय के कचरे के ढेरो के पास रखी रही। मृतक के परिजनों की चीख पुकार सुनने वाला वहॉ कोई नहीं था, कोरोना मरीजो के अंतिम संस्कार के लिए भी 3-3 हजार रू. की रसीद आपदा को अवसर बनाकर सिवनी नगरपालिका द्वारा काटी गई जिले के अनेक समाज सेवी संगठनों ने ओ सीजन, रेमडिसिविर इंजे शन की व्यवस्था लोगो को कराई।

जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सेवकराम चन्द्रवंशी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि भाजपा सरकार में कोरोना से मृत लोगो के परिजनो को पूर्व में 4 लाख रू. देने की घोषणा की उसके बाद 1 लाख रू. एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क अनाज, 5 हजार रू. प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की। कोरोना मृतको के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह बेईमानी पर उतर आई, हजारों कोरोना मृतको को कोरोना से मृत मानने से इंकार कर दिया ताकि कोरोना से दिया जाने वाले लाभ से बचा जा सकें। आज भी सिवनी में कोरोना से मृतक के परिजनों का आर्थिक रूप से बुरा हाल है, भाजपा सरकार द्वारा दिये गये लॉलीपाप के कारण विभिन्न कार्यालयों का चक्कर काट रहें है लेकिन उन्हें कही से राहत नही मिली।

सिवनी की जनता वह त्रासदी कभी नहीं भूलेगी सिवनी विधायक आज जो तर्पण का दिखाकर रहें है समय रहते कोरोना मरीजो पर यदि ध्यान दिया होता तो असमय इतने अधिक लोगो का तर्पण करने की आवश्यकता सिवनी विधायक को नही पड़ती। कोरोना से मृत लोगो का तर्पण तो उनके परिवार के लोग कर लेंगे, भगवान भी ऐसे लोगो को मोक्ष दे देगा, किन्तु उनके परिवार से भाजपा सरकार ने जो वादे किये है वह पूरे` यो नहीं किये गये, आवश्यकता उन वादो को पूरा करने की थी जिससे कोरोना से मृतक के परिजन आर्थिक बदहाली के शिकार है कोरोना मृतको के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होती जब उनके परिजनो को घोषणानुरूप मुआवजा राशि प्राप्त हो जाती।

विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया की टिकट घोषित होते ही कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न

विधायक ने नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में पूजन अर्चन कर लिया आशीर्वाद

बरघाट - मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 144 उमीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी गई है। बरघाट से विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया की पुनः टिकिट घोषित होने से उनके घर पर जश्न का माहौल रहा। उन्होंने बरघाट कुरई विधानसभा 114 से पर कांग्रेस ने फिर से मैदान में उतारा है। ऐलान के बाद उनके समर्थकों ने ढोल बजवाकर जश्न मनाया। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने अपनी पहली सूची दो माह पूर्व ज़ारी कर पूर्व विधायक कमल मर्सकोले को बरघाट से भाजपा प्रत्याशी बनाया था, इसके बाद सबको कांग्रेस की टिकट घोषित होने का इंतजार था, इसके बाद आज विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया को दोबारा मौका मिलने के बाद समर्थकों ने जमकर खुशियां मनाकर बस स्टैंड, राम मंदिर, देवी मंदिर व कांग्रेस कार्यालय में जमकर आतिशबाजी की। वही कार्यकाल में उनके समर्थक जश्न मनाकर फूल माला पहना कर उनका स्वागत किया, इस दौरान उनके समर्थक ढोल नगाड़ा बजाते हुए जमकर डांस भी किया।

अर्जुन सिंह काकोडिया टिकट मिलने पर पहुंचे मंदिर -

नवरात्र के पहले दिन विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया आष्टा देवी माता मंदिर दर्शन और पूजन अर्चन करने गए थे वहीं उन्हें टिकट जारी होने की सूचना मिली, टिकट की घोषणा होने के बाद बरघाट पहुंचकर विधायक अर्जुन सिंह काली माता के दर्शन करने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान सैकड़ों की सं या में उनके समर्थक और क्षेत्र के रहवासी भी वहां पहुंचे और फूल-माला व ढोल-नगाड़े बजा कर जमकर उनका स्वागत किया. इसके बाद राजराजेश्वरी चोक में हनुमान मंदिर पहुंचे, विधायक की हनुमान जी में अटूट आस्था है. मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करते हुए हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचे. हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर मंदिर का परिक्रमा भी लगाया और फिर देवी माता मढिया मंदिर पहुंचकर आरती की, उसके बाद विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया बजरंग चौक हनुमान मंदिर, शांति नगर स्थित महामाया मंदिर व शारदा मंदिर में भी पहुंचकर पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया।

एक ही रंग में रंगे मतदान केंद्र17 नव बर को करेंगे मतदाताओं का इंतजार

बालाघाट यशोः- विधानसभा निर्वाचन-2023 के मद्देनजर जिले के सभी 1675 मतदान केंद्रों को एक ही रंग में रंगने का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में प्रारंभ हो चुका है। डीईओ डॉ. मिश्रा के निर्देशन में यह नवाचार 17 नव बर को होने वाले मतदान के लिये मतदाताओं को आमंत्रित करने की एक अच्छी व अनोखी पहल है। मतदान केंद्रो को सिर्फ एक ही रंग में करने के अलावा जहां रै प शौचालय, दो दरवाजे और उचित प्रकाश की व्यवस्था नही है वहां इन सभी व्यवस्थाओं को दुरु?त करने का कार्य भी चल रहा है। एक ही रंग में पुताई के बाद मतदान केंद्र सुंदर और आकर्षक लगने लगे है। जैसे ये मतदान केंद्र लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिये 17 नव बर मतदान दिवस पर आमंत्रित कर रहे हो।

मतदाता जागरूकता की गतिविधियों में तेजी लाने स्वीप पार्टनर विभागों को दिए निर्देश

भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए, इसके लिए प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सभी से मतदान करने की अपील की जा रही है। मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने के लिए मु य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) पार्टनर विभागों को निर्देश दिए हैं।

स्वीप पार्टनर विभाग यह गतिविधियां करें आयोजित-

आयुक्त आदिवासी विकास, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसं यक कल्याण द्वारा संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों एवं विद्यालयों के कक्षा 11वीं एवं 12 वीं के छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए श्रस्ष्ट (मतदाता साक्षरता` लब) का गठन कर मतदाता जागरूकता के संबंध में गतिविधियां आयोजित की जाएं। महाविद्यालयों में कैंपस एंबेसडर की नियुक्ति कर मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियां संचालित कराएं। शहरी क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों एवं विद्यालयों/ महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता/ नैतिक मतदान संबंधी विशेष गतिविधियां आयोजित करें। जिला निर्वाचन कार्यालयों से मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी पोस्टर /बैनर प्राप्त कर छात्रावासों में लगाये एवं प्रचार-प्रसार करें। हर सप्ताह नोडल अधिकारियों, कैंपस एंबेसडर एवं ईएलसी द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा करें।

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण द्वारा दिव्यांगजनों एवं 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं को फॉर्म 12D (घर बैठे मतदान हेतु) की सुविधा का प्रचार-प्रसार किया जाए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान करने हेतु पोस्टर, बैनर और लै स के माध्यम से जागरूक करने के लिए गतिवि?धियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में कलापथक दलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा तथा शहरी क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता के संबंध में विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएं। संबंधित कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले पत्राचार में एवं भेजे जाने वाले लिफाफों पर मतदाता जागरूकता संबंधी संदेशों को अंकित करायें। सचिव रेडक्रास सोसायटी द्वारा अस्पतालों की ओ.पी.डी पर्चियों पर मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी संदेश अंकित करायें। रेडक्रास एवं जूनियर रेडक्रास के शिविरों में एवं रक्तदान शिविरों में मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी गतिविधियां आयोजित करें। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में मतदाता जागरूकता/ नैतिक मतदान संबंधी सघन गतिविधियां आयोजित कराएं। नगरीय निकायों में स्वीप गतिविधियों के संचालन हेतु एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर नगरीय मतदाताओं को मतदान करने के लिये जागरूक करने हेतु गतिविधियां आयोजित करायें। स्व?च्छता वाहनों पर मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी संदेश/ जिंगल्स/ मतदाता गीत के माध्यम से भी शहरी मतदाताओं को जागरूक करें। खाद्य, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, संस्कृति, पर्यटन, दुग्ध संघ, वन, पशुपालन एवं डेयरी, कृषि तथा मु य महाप्रबंधक बीएसएनएल को मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भगवान परशुराम मंदिर में स्थापित हुये मनोकामना कलश

सिवनी यशोः-15 अे टूबर प्रतिपदा को श्रीमाता राज राजेश्वरी एवं भगवान श्री परशुराम सिद्ध मंदिर नंदीकेश्वरधाम सिवनी में सामूहिक मनोकामना कलशों की स्थापना की जा रही है। जिसके लिये समिति का गठन किया गया।

समिति में कलश प्रभारी पंडित सोनू महाराज, सहयोग प्रभारी कोष अध्यक्ष अशोक तिवारी, मंदिर साज सज्जा साउंड प्रभारी डॉ. संदीप उपाध्याय, विनायक शर्मा, मयूर दुबे, कलश स्थापना संबंधित प्रभारी दिनेश मिश्रा (राजू भैया), राजेंद्र दुबे, रविकांत तिवारी, संतोष अवस्थी, राजेंद्र शर्मा, सूर्यकांत चतुर्वेदी, पूजन प्रभारी में विनोद मिश्रा, शिवकुमार तिवारी, श्रीमती गीता अवस्थी, श्रीमती अरविंद दुबे, श्रीमती प्रतिभा तिवारी, श्रीमती राधिका दुबे, श्रीमती दुर्गेश्वरी शर्मा, श्रीमती ज्योति भार्गव, श्रीमति पूजा तिवारी, फलाहार भोजन प्रभारी में श्रीमती मंजू जुगल दुबे, श्रीमती शैल दुबे, श्रीमती प्रतिभा रविकांत तिवारी, श्रीमती राजेश्वरी दुबे, श्रीमती मंजू तिवारी, श्रीमती नीतू दुबे, जस मंडल प्रभारी में श्रीमती शकुन तिवारी, श्रीमती सविता तिवारी, श्रीमती सरला उपाध्याय, श्रीमती अनामिका मिश्रा, रंगोली प्रभारी में श्रीमती सुधा शु ला, श्रीमती श्रद्धा मिश्रा, कुमारी रितु पाठक, श्री मति किरण शु ला, सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रभारी, अंजली मिश्रा, जयदीप दुबे, संदीप उपाध्याय, श्रीमती तरुण चतुर्वेदी, श्रीमती उषा शर्मा को शामिल किया गया है। इसी तरह प्रारंभ से लेकर अंत तक कलश विसर्जन तक के प्रभारी में अजय मिश्रा, आलोक दुबे, अमोल शु ला, प्रदीप तिवारी, संदीप दुबे, भुवनेश्वर शु ला, बाबा विद्याधर तिवारी, प्रशांत शु ला, अशोक तिवारी, वरुण चौबे, विवेक पांडे पप्पू भैया को शामिल किया गया है। इसके अलावा पेयजल सफाई व अन्य व्यवस्थाओं के लिये प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है।

कलश स्थापना के लिये न केवल मु यालय सिवनी के ब्रा हण अपनी सहमति दे चुके है बल्कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यो व विदेशो में रह रहे विप्रजन भी मनोकामना कलश स्थापित कराये गये है ।

कांग्रेस ने 69 विधायको को दोबारा टिकट दिए, नेताओं के परिजनों को भी मिला टिकट

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बहुप्रतिक्षित प्रत्याशियों की सूची रविवार सुबह नवरात्र के पहले दिन जारी हो गई। 144 उमीदवारों वाली सूची में 69 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उमीदवार बनाया गया है। मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुदनी से रामायण सीरियल में हनुमान का रोल करने वाले विक्रम मस्ताल को उतारा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काट दिया गया है। दिल्ली में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी की है, उसमें 65 उमीदवारों की उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं। हमने जो कहा वह किया। भाजपा के जीत के दावे को लेकर पूछे सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि अब उन बेचारों के पास बचा` या है? वह यह तो नहीं कह सकते है कि हम हार रहे हैं।

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया की जगह झाबुआ से उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है। वहीं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ और भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व मंत्री अरुण यादव के भाई सचिन यादव को कसरावद से टिकट दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बौरासी को सांवेर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्व मु यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल को चुरहट और सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को अटेर से टिकट दिया गया है।

मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुदनी से रामायण सीरियल में हनुमान का रोल करने वाले विक्रम मस्तान को टिकट दिया है। भोपाल की सात में तीन सीट नरेला में मनोज शु ला, मध्य से विधयाक आरिफ मसूद और बैरासिया से पूर्व प्रत्याशी जयश्री हरीकिशन को टिकट दिया गया है। यहां पर विधायक पीसी शर्मा की दक्षिण पश्चिम समेत चार सीट गोविंदपुरा, उत्तर और हुजूर पर प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है।

कांग्रेस ने बैतूल की पांच सीटों में से चार सीट पर प्रत्याशी घोषित किए है, लेकिन भाजपा के कब्जे वाली आमला सीट पर अभी नाम का एलान नहीं किया है। वहीं, इंदौर-1 में कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शु ला को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, पिछोर से 1993 से लगातार जीतते आ रहे केपी सिंह की पिछोर सीट बदलकर उनको शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया है। वहीं, पिछोर से शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया है।

नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव सीट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक एनपी प्रजापति की टिकट काट दी है। यहां से शिखर चौधरी को टिकट दिया गया है। घोड़ाडोंगरी से ब्रह्म भलावी का टिकट काट कर राहुल उइके को टिकट दिया गया है। वहीं, गुनौर से शिवदयाल बागरी का भी टिकट काट दिया है। कंटगी से तामलाल सहारे का टिकट काटकर पूर्व सांसद गोध सिंह भगत को टिकट दिया है। वहीं, झाबुआ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल लाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया है। 2018 में विक्रांत भूरिया इसी सीट से भाजपा के जीएस डोमार ने हराया था। 2019 में जीएस डोमर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने। जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ने जीत दर्ज की थी।

वहीं, चित्रकुट से निलांशु चतुर्वेदी, रैंगाव से कल्पना वर्मा, सतना से डब्बू सिद्धार्थ शु ला, सिहावल से कमलेश्वर पटेल, कोतमा से सुनील सराफ, पुष्पराजगढ़ से फुंदेलाल सिंह मार्को, बरगी से संजय यादव, जबलपुर पूर्व से लखन घाघोरिया, जबलपुर नार्थ से विनय से सेना, जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोट, शाहपुरा से भूपेंद्र मरावी, डिंडौरी से ओमकार सिंह मरकाम, बिछया से नारायण सिंह पट्टा, निवास से डॉ. अशोक मसकोले, बैहर से संजय उईके, लांजी से हीना कावरे, बरघाट में अर्जुन सिंह काकोड़िया, लखनादौन से योगेद्र सिंह बाबा, तेंदुखेड़ा से संजय शर्मा, छिंदवाड़ा से कमलनाथ को प्रत्याशी बनाया गया है।

मुलताई से सुखदेव पांसे, बैतूल से निलय विनोद डागा, भैंसदेही से धरमु सिंह सिरसाम, उदयपुरा से देवेंद्र सिंह पटेल, विदिशा से शंशाक भार्गव, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद, राजगढ़ से बापू सिंह तंवर, खिलचीपुर प्रियव्रत सिंह, आगर से विपिन वानखेड़े, शाजापुर से हुकूम सिंह कराड़ा, कालापीपल कुणाल चौधरी, सोनकच्छ सज्जन सिंह वर्मा, भीकमगांव झूमा सोलंकी, महेश्वर विजयलक्ष्मी साधौ, कसरावद से सचिन यादव, खरगोन से रवि जोशी, राजपुर से बाला बच्चन, पेटलावद से वाल सिंह मेढ़ा, सरदारपुर से प्रताप ग्रेवाल, गंदवानी से उमंग सिंघार, कुक्षी सुरेंद्र सिंह बघेल हनी, धरमपुरी पांचीलाल मेढ़ा, देपालपुर विशाल पटेल, इंदौर-1 संजय शु ला, राऊ जीतू पटवारी, तराना महेश परमार, खाचरोद दिलीप सिंह गुर्जर, घटिया रामलाल मालवीय, सैलाना हर्ष विजय गहलोत, अलोट मनोज चावला को प्रत्याशी बनाया है।

मण्डला जिले में 17 अे टूबर को मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा आगमन

मण्डला नगर, घुघरी, मानिकसरा, बीजाडांडी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल

मण्डला यशोः- प्रदेश के जननायक मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 17 अे टूबर को मण्डला नगर में आगमन होगा मु यमंत्री श्री चौहान मण्डला सहित घुघरी, बीजाडांडी के ग्राम मानिकसरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर भाजपा की संगनात्मक बैठक एवं सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी सुधीर कसार ने बताया कि 17 अे टूबर को प्रातः 11 बजे मु यमंत्री श्री शिवराज चौहान हेलीकॉप्टर द्वारा महाराजपुर मण्डला स्थित हेलीपेड में पहुंचेंगे तत्पश्चात माता राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर नगर भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र नर्मदा जी वार्ड में ठाकुर परिसर स्थित गार्डन में शक्तिकेंद्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के पश्चात दोपहर 12.10 बजे से रोड शो में शामिल होंगे। मण्डला नगर के बुधवारी चौक, उदय चौंक, अंबेडकर चौंक, दीनदयाल चौंक, बस स्टेंड, लालीपुर अवंति बाई चौंक होते हुए बैगा बैगी चौंक, नेहरू स्मारक से महाराजपुर दादा धनीराम मंदिर, आंगन तिराहा, होते हुए बजरंग चौंक से नर्मदा संगम हेलीपेड तक पहुंचेंगे। मु यमंत्री श्री चौहान रोड शो के दौरान नगर की जनता से भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने के लिए जनआर्शीवाद लेंगे। मण्डला नगर में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात मु यमंत्री श्री चौहान बिछिया विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड घुघरी के लिए प्रस्थान करेंगे तथा आयोजित सभा को संबोधित करेंगे तत्पश्चात निवास विधानसभा क्षेत्र के बीजाडांडी विकासखण्ड के ग्राम मानिकसरा पहुंचकर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे।

भाजपा जिलाध्यक्ष श्री भीष्म द्विवेदी ने मु यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मण्डला आगमन को लेकर निवास विधानसभा, बिछिया विधानसभा, मण्डला विधानसभा, क्षेत्र के कार्यक्रम स्थल का दौरा कर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को तैयारियों के लिए जि मेदारी सौंपी है श्री द्विवेदी ने जिले के आम नागरिको भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि मु यमंत्री श्री चौहान के आयोजित होने वाले मण्डला जिले के विभिन्न कार्यक्रम, रोड शो, जनसभा में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाने अपना आर्शीवाद प्रदान करें।

प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले

7 से टर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

मण्डला यशोः- विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत आरडीपीजी कॉलेज मंडला में 12 अे टूबर को आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 7 से टर अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिन से टर अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, उनमें जगत सिंह मरावी उद्यान विकास अधिकारी, ओमप्रकाश वरकड़े उपयंत्री जनपद पंचायत बिछिया, राकेश कुमार साहू उपयंत्री नर्मदा क्रं. 2, अखिलेश पंद्रे उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रं. 2, संजय सार्वे उपयंत्री जनपद पंचायत नारायणगंज, सुनील कुमार शु ला उपयंत्री जनपद पंचायत नारायणगंज तथा शक्ति सिंह गौठरिया वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मंडला स मिलित हैं। अपर कले टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

महाराज अग्रसेन ने दिया सबका साथ - सबका विकास का सिद्धांत

आधुनिकता के दौर में दुर्व्यसनों से बचाना बहुत जरूरी- डा. प्रकाश खेतान

अग्रवाल समाज ने हर्षोल्लास से मनाया महाराजश्री अग्रसेन का जन्मोत्सव, निकाली वाहन रैली, किया हवन पूजन

सिवनी यशोः-अग्रकुल शिरोमणि सूर्यवंशी महाराज श्री अग्रसेन का जन्मोत्सव जबलपुर रोड स्थित अग्रसेन भवन में रविवार को अग्रवाल समाज ने हर्षोल्लास से मनाया। मु य समारोह से पहले सामाजिकजनों व नागपुर महाराष्ट्र से आए अतिथियों ने सपरिवार महाराजश्री के पूजन-हवन, आरती में हिस्सा लिया।15 अे टूबर नवरात्रि के शुभ अवसर पर विशाल वाहन रैली से कार्यक्रम प्रारंभ किया। सुबह 11 बजे मठ मंदिर परिसर में एकत्रित अग्रवंशियों ने डीजे-साउंड व डोल-बाजों के साथ महाराज अग्रसेन के जयकारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गो से वाहन रैली निकाली। अतिथियों को शहर भ्रमण कराते हुए वाहन रैली अग्रसेन भवन लूघरवाड़ा में समाप्त हुई। यहां पर महाराजश्री के पूजन-आरती के बाद अतिथियों ने मंचीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया।कार्यक्रम का प्रारंभ दीप-प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। समारोह में मु य अतिथि नागपुर के प्रसिद्ध डा. श्री प्रकाश प्रहलाद राय खेतान पत्नी श्रीमती सीमा खेतान, विशिष्ट अतिथि डा. श्री अनूप जी गर्ग पत्नी श्रीमती अलका गर्ग के साथ ही सिवनी अग्रवाल समाज समिति अध्यक्ष श्री श्रवण अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल, श्री संतोष अग्रवाल, महासचिव श्री नरेश अग्रवाल, सहसचिव श्री तरूण अग्रवाल मंचासीन रहे। अतिथियों का अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों व युवा समिति ने आत्मीय स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों का मालाओं से स्वागत कर आर्शीवाद लेकर कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाया गया। सभी कार्यक्रमों का अग्रसेन माधवी मंच द्वारा संचालन किया गया। महिला सदस्यों ने महाराष्ट्र नागपुर से आए अतिथियों के जीवन पर संक्षिप्त परिचय दिया।

देते थे एक ईट व एक सिक्का

मु य अतिथि डा. प्रकाश खेतान ने कहा कि अग्रवाल समाज सभी क्षेत्र में निरंतर उन्नति कर रहा है। व्यापार के साथ हम उद्योग, सरकारी सेवा, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। समाज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, यह सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आधुनिकता के दौर में हमें सभी तरह के दुव्यर्सन से बचना चाहिए। दिनचर्या में परिश्रम कम हो गया है। ऐसे में हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। विशिष्ट अतिथि डा. अनूप गर्ग ने कहा कि, सिवनी अग्रवाल समाज के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज अग्रसेन ने सबका साथ - सबका विकास सिद्धांत दिया था। जिसे अपनाकर समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के एक ईंट एवम एक सिक्का के माध्यम से समाजवाद व सबका विकास करने के सिद्धांत आज भी मान्य है। तत्कालीन समय मे उनके राज्य में बाहर से कोई व्यक्ति आता था तो उसे सभी व्यक्ति एक ईंट व एक सिक्का देते थे। इस प्रकार इट से मकान बना लेता था व संग्रहित धन से व्यापार कर रोजी कमा लेता था। इससे सबका साथ सबका विकास करने की परंपरा बन गई थी। उन्होंने महाराज के आदर्शो को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री श्रवण अग्रवाल ने सिवनी अग्रवाल समाज की गतिविधियों से अतिथियों को अवगत कराते हुए भवन, सामाजिक कार्यक्रमों और महिला मंचों की संक्षिप्त जानकारी दी। उपाध्यक्ष श्री संतोष अग्रवाल ने कहा कि सभी सदस्यों, महिलाओं व प्रत्येक परिवार की मेहनत का नतीजा है कि सिवनी में बहुत ही भव्यता के साथ कार्यक्रमों को आयोजित किए जाते हैं, जो प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में चर्चाओं में रहते हैं। इसी एकजुटता के साथ समाज निरंतर आगे बढ़ता रहे। मंच संचालन श्री उमेश मोदी ने किया।

मेद्यावी विद्यार्थियों को स मानित किया

प्रवक्ता श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि 11 अे टूबर से संचालित पांच दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों व समाज के मेद्यावी विद्यार्थियों को अतिथियों ने मंच से स मानित किया। समारोह में उपस्थित विभिन्न मीडिया समूह के आमंत्रित पत्रकारों को लान संचालक श्री सल्लू अग्रवाल की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर स मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों को स मानित किया। इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम को आकर्षक व भव्य बनाने के लिए समाज के चार महिला मंडलों अग्रसेन महिला एकता मंच, अग्रोहा सखी मंच, अग्रनारी शक्ति मंच, अग्रसेन माधवी मंच को 11-11 हजार रुपये नकद व स्मृति चिन्ह देकर स मानित किया गया। अंत में कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश अग्रवाल ने एक कहानी के माध्यम से समाजिक एकजुट का संदेश दिया। साथ ही उपस्थित सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, अग्रवाल समाज के पुरूष-महिलाओं के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग देने वाले पुलिस प्रशासन व सभी पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त कर कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई।

लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और जल संसाधन विभाग के विश्राम गृह अधिग्रहण किए गए

मण्डला यशोः- विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के फलस्वरूप संपूर्ण राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत जिले के विश्राम गृह को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस मंडला, विश्राम गृह मंडला, खारी, ब हनी, मनोट, चाबी, अंजनिया, बिछिया, मोतीनाला, नैनपुर, मोचा, टिकरिया, निवास, बबलिया को अधिग्रहित किया गया है। वन विभाग के विश्राम गृह मंडला, खारी, मोतीनाला, मवई, मंगली, मुक्के, किसली, तुरूर, कालपी, मुईयापानी और निवास। जल संसाधन विभाग के विश्राम गृह मंडला, मटियारी, नैनपुर, बीजेगांव, मुर्गा टोला और निवास को अधिग्रहित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त विश्राम गृहों का आरक्षण संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारियों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के तहत किया जाएगा।

योजना भवन मंडला में बना वोटर सेल्फी प्वाइंट आकर्षण का केन्द्र

मंडला यशोः- जिले में संचालित मतदाता जागरूकता अभियान 2023 के अंतर्गत योजना भवन कले ट्रेट कार्यालय में वोटर सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है। जो मतदाताओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने शुक्रवार को वोटर सेल्फी प्वाईट में पहुँचकर सेल्फी ली और जिले के मतदाताओं को विधानसभा निर्वाचन में मेरा मत मेरा अधिकार और निष्पक्ष, निर्भीक, नैतिक मतदान करने की अपील की। अब मतदाता वोटर सेल्फी प्वाइंट योजना भवन में पहुंचकर जिले के सेल्फी ले रहे हैं। जिले में आगामी 17 नवंबर 2023 मतदान दिवस को लेकर मतदाताओं में जमकर उत्साह है। मतदाताओं का कहना है कि विधानसभा निर्वाचन में सब मिलकर अनिवार्य रूप से मतदान करेंगे। उन्हें मतदान करने में बहुत खुशी होगी।

कांग्रेस और भाजपा के बीच रहेगी कांटे की टक्कर

मंडला यशोः- बिछिया के अपेक्षा इस बार निवास का चुनाव भाजपा के लिए काफी मायने रखने वाला है। यहां 1985 से 1990 तक भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। 1990 में फग्गन सिंह कुलस्ते यहां से विधायक का चुनाव लड़े और भाजपा को जीत दिलाई। इसके बाद से 1993 में शमशेर सिंह बीजेपी से विधायक रहे। 1998 में बीजेपी ने सवित्री पदम को टिकट दिया था जिसमें हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस से सुरत सिंह मरावी ने जीत हासिल की। निवास सीट में 2003 से 2013 तक बीजेपी का कब्जा रहा। लेकिन 2018 में हार के बाद 2023 का चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने बड़ा बदलाव किया। तीन पंचवर्षीय से छोटे भाई रामप्यारे को टिकट दे रही भाजपा ने 2023 के लिए लोकसभा चुनाव में 5 बार जीत हासिल करने वाले केन्द्रीय मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते को विधायक का टिकट दिया है। छोटे भाई के हार का बदला लेने के साथ ही भाजपा को फिर से निवास विधान सभा देने की जि मेदारी फग्गन सिंह को दे दी गई है।

मंडला विधान सभा में पिछले 9 विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने छह बार जीत दर्ज कराई है। तीन बार भाजपा विजयी रही। 1985 के बाद 2003 में शिवराज शाह ने कांग्रेस की जीत पर विराम लगाया। जिसका अंतर भी ज्यादा नहीं था। 1990 में कांग्रेस के छोटेलाल उइके विजयी रहे थे। छोटेलाल 1993 में भी विजयी रहे। 1998 में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई और देवेंद्र टेकाम चुनाव जीत गए। 2003 के चुनाव में बीजेपी के शिवराज शाह ने जीत हासिल की। फिर 2008 के चुनाव में बीजेपी के देव सिंह सैयाम विजयी रहे। लेकिन 2013 में बीजेपी को हार मिली और इस चुनाव में कांग्रेस के संजीव उइके ने चुनाव जीत लिया। हालांकि 2018 में बीजेपी के देव सिंह सैयाम ने वापसी की और दूसरी बार यहां से जीत हासिल की। इस बार के प्रत्याशियों की सूची का पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं को भी इंतजार है।

लोकगीतों के माध्यम से वोटरो तक पहुंचेगा मतदाता जागरूकता का संदेश

मंडला यशोः-वधानसभा आम निर्वाचन 2023 में जिले के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं। जिसका उद्देश्य आगामी मतदान दिवस में मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करना है। जिससे जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। इसी उद्देश्य को लेकर जिला योजना भवन कले ट्रेट में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत स्वीप गीत का विमोचन किया गया। इस गीत को लोकगायक श्याम बैरागी के द्वारा गाया गया है। गीत के बोल 'फिर चुनाव आया, मतदान ने बुलाया कि जागो मेरी बहना-जागो भैया मेरे भैया वोट डालने तू जाना रे...थे।

कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस लोकगीत का विमोचन किया। सभाकक्ष में लोकगायक श्याम बैरागी ने मतदाता जागरूकता के गीत को गाकर सुनाया। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इस गीत के माध्यम से मंडला जिले में मतदाता जागरूकता अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिससे जिले के मतदाता मतदान के प्रति जागरूक होकर मतदान कर सकें।

कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोजित कार्यक्रम में लोकगायक श्याम बैरागी को स मानित किया। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन का कार्य निर्वाचन संबंधी कार्यक्रमों व कार्यों के साथ-साथ मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि मतदान करना ऐसा दायित्व है जिसमें हर मतदाता की जि मेदारी है कि वह मतदान करे। इसके लिए जिले में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों में महिला-पुरूषों, वृद्धजनों, युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है कि आगामी 17 नवंबर को मतदान अवश्य करें। जिले में संचालित स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत युवाओं, ट्राइबल्स, मीडियाकर्मियों और औद्योगिक क्षेत्र के मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

जिले में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को बताया जा रहा है कि सभी मतदाता उत्साहपूर्वक अपने-अपने मतों का प्रयोग करें। इससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता भय, लालच, प्रलोभन में आकर मतदान न करे। सभी मतदाता निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान करें। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचाने का संदेश दिया। उन्होंने जिंगल, पंपलेट और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों और विभिन्न कार्यक्रमों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिससे मतदाता जागरूकता का यह अभियान जिले के 7 लाख 93 हजार मतदाताओं तक पहुंच सके। आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

आयुष्मान भव अभियान : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

स्वास्थ्य मेले में 751 मरीज को मिला उपचार

मंडला यशोः- आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्र व्यापी स्वास्थ्य सेवा की पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का प्रतीक है। इसका मु य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गांव और शहर में व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज का विस्तार करना है और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास परिसर में आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेला में आए लोगों की निःशुल्क इलाज के साथ दवाओं का भी वितरण किया गया। स्वास्थ्य मेला में हेल्थ आईडी कार्ड, लेप्रोसी जांच, मलेरिया जांच, टीबी जांच, परिवार नियोजन से जुड़े सलाह, मरीजों की जांच, हीमोग्लोबिन टेस्ट समेत अन्य जांचे की गई। इस स्वास्थ्य मेले में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग, मेडिसिन, दंत रोग, नेत्र रोग, सर्जरी, ईएनटी, अस्थि रोग विशेषज्ञों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई।

आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेला का उदघाटन निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी बीएमओ डॉ. विजय पैगवार द्वारा किया गया। इस दौरान जबलपुर से आए विशेषज्ञ

चिकित्सक समेत निवास स्वास्थ्य केन्द्र का स्टाफ मौजूद रहा। स्वास्थ्य मेला में अलग-अलग विभाग से जुड़े काउंटर बनाए गए थे जहां लोग सलाह लेने के साथ निःशुल्क उपचार का लाभ लिए। इस स्वास्थ्य शिविर में निवास क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे।

बता दें कि इस स्वास्थ्य मेला का आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि लोगों को एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा के साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य कई तरह की सेवा का लाभ मिल सके। आयुष्मान भव मेला में 751 मरीज पहुंचे। जहां इन्हें इलाज के साथ उन्हें जरूरी दवा दी गई। वहीं स्वास्थ्य मेले में पहुंचे लोगों का हेल्थ कार्ड बनाए गए। स्वास्थ्य मेले में सभी प्रकार की जरूरी जांचे आने वाले मरीजों की गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास में आयोजित आयुष्मान मेले में मु य खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय पैगवार, जबलपुर मेडिकल से विशेषज्ञों की टीम के साथ सीएचसी के चिकित्सक मौजूद रहे। जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रतिभा सिंह बघेल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.गौरव कुमार प्रजापति, मेडिसिन डॉ. अमित लखेरा, दंत रोग डॉ. मयूर सोनी, नेत्र रोग डॉ. आकांक्षा एक्का, सर्जरी डॉ. हर्षित पाटीदार, ईएनटी से डॉ. शैलेष, अस्थि रोग से डॉ. अनिल कारपोती समेत सीएचसी निवास से डॉ. अजय खंडेल, डॉ. विकसिता सैयाम, समेत चिकित्सीय स्टाप द्वारा आयोजित आयुष्मान शिविर में सेवाएं दी गई।

निःशुल्क दबाई का वितरण

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास में आयोजित आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले में 751 मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया। स्वास्थ्य मेले में जबलपुर मेडिकल से स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग, मेडिसिन, दंत रोग, नेत्र रोग, सर्जरी, ईएनटी, अस्थि रोग विशेषज्ञों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। स्वास्थ्य मेले में 751 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। जिसमें ईएनटी 47, गायनिक 46, डेन्टल 35, पीडियाटि स 50, आर्थो 83, मेडिसन 60, जनरल सर्जरी 33, अंधत्व की जाँच 118, आभा आईडी 170 बनाई गई। शिविर में पहुंचे मरीजों का जांच परीक्षण कर सभी मरीजों को निःशुल्क दवाईयां वितरित की गई।

स्मैक बेचने के फिराक में था युवक, पुलिस ने दबोचा

मंडला यशोः-ऑपरेशन` लीन स्वीप के तहत पुलिस जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं उनकी गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने ब्राउन शुगर के साथ आरोपी को गिर तार किया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली टीम को 12 अे टूबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राजा उर्फ चप्पू बंजारा नाम का व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक लेकर बेचने के लिए स्टेडियम के पास तिलक वार्ड मंडला में खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम ने स्टेडियम के पास तिलक वार्ड मंडला पहुंच आरोपी की घेराबंदी कर नियमानुसार तलाशी लेकर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर 8.76 ग्राम कीमत करीब 20 हजार रुपए जब्त कर गिर तार किया है। आरोपी राजा उर्फ चप्पू बंजारा पिता स्व भद्दू बंजारा उम्र 30 साल निवासी खईया मोहल्ला तिलक वार्ड मंडला के विरूद्ध थाना कोतवाली मंडला में एनडीपीएस की धाराओं में अपराध पंजीबध्द कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला अर्चना अहीर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक शफीक खान की टीम जिसमें उपनिरीक्षक हरछठ ठाकुर, आरक्षक अमित गरयार, रमेश सिंगरौरे, आशीष धुर्वे, रज्जन तेकाम, मानसिह परस्ते, राखी बघेल, लकी श्रीवास का सहयोग रहा। गौरतलब है कि पुलिस ने जिला अंतर्गत नशे का खात्मा एवं स्मैक, गांजा, हेरोइन, नशीले इंजे शन इत्यादि अवैध मादक का कारोबार करने वाले अपराधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए आपरेशन` लीन स्वीप लॉन्च किया गया है।

दैनिक यशोन्नति की और खबरों तथा वीडिओ के लिये एप डाउनलोड करें -https://dainikyashonnati. com

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक मुद्रक राजेश अग्रवाल द्वारा,नवीन प्रिंटर्स बीझावाड़ा रोड अकबर वार्ड सिवनी से मुद्रित एवं काली चौक टैगौर वार्ड सिवनी से प्रकाशित संपादक- मनोज मर्दन त्रिवेदी ईमेल-yasonati@gmail.com न्यायालीन क्षेत्र अधिकार सिवनी , 9425843297